

अनिवासी भारतीय की पहली पत्नी के पिता सहित पांच लोग गिरफ्तार

चंडीगढ़, 25 अगस्त (ब्यूरो)।

पंजाब के अमृतसर में अनिवासी भारतीय (एनआरआई) को गोली मारे जाने की वारदात के अगले दिन रविवार को पुलिस ने इस प्रकरण में पीड़ित की पहली पत्नी के पिता सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में अमेरिका से लौटे सुखचैन सिंह पर गोली चलाने वाले दो फरार हमलावरों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

हमलावरों ने इस वारदात को शनिवार उस वक्त अंजाम दिया जब सुखचैन सिंह सुबह सैर के लिए शहर के बाहरी इलाके में गांव दाबुर्जी स्थित अपने घर से बाहर निकल रहे थे। पंजाब पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, हमलावर पीड़ित के आवास में घुस गए और

मौका-ए-वारदात से निकल भागने से पूर्व उन्होंने सुखचैन सिंह पर तीन गोлияयां दागी थीं। इस हमले में उन्हें दो गोलियां लगीं, जिनमें से एक उनके सिर में और दूसरी उनकी छाती के समीप लगी थी। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है।

अमृतसर के पुलिस आयुक्त रणजीत सिंह ढिल्लों ने अमृतसर में संवाददाताओं से कहा कि सुखचैन सिंह पर हमला उनकी पहली पत्नी के परिवार ने कराया है। उन्होंने कहा कि सुखचैन सिंह की पहली पत्नी ने दिसंबर, 2022 में आत्महत्या कर ली थी और उनका परिवार सुखचैन सिंह से खुनस खाए बैठा था। पुलिस ने कहा कि अनिवासी भारतीय की हत्या के लिए दो बदमाशों-सुखविंदर उर्फ सुख्खा और गुरकीरत सिंह उर्फ गुरी को सुपारी दी गई थी।

हरियाणा : चुनाव आयोग की बैठक कल

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 25 अगस्त।

हरियाणा में मतदान की तारीख बदलेगी या नहीं, इसका फैसला मंगलवार को होगा। राजनीतिक दलों से मिले प्रस्तावों के बाद निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को अहम बैठक बुलाई है।

बैठक के बाद ही निर्वाचन की तारीखों को लेकर फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। कार्यक्रम में बदलाव का अधिकार निर्वाचन

युवती को वेश्यावृत्ति में धकेलने का आरोप, मामला दर्ज

ठाणे, 25 अगस्त (भाषा)।

मध्य प्रदेश के जबलपुर में 20 वर्षीय युवती को देह व्यापार में धकेलने के आरोप में दो महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ठाणे पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। रावोडी पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता के अनुसार वह 17 अप्रैल को यहां दिवा में एक आरोपी के घर गई थी, जहां उसने जबलपुर में अच्छी नौकरी के बारे में बताया था। उन्होंने कहा, जबलपुर में आरोपियों ने पीड़िता को 5000 रुपए में दूसरी महिला को सौंप दिया और वहां से चली गई। दूसरी आरोपी ने पीड़िता को जबरन देह व्यापार में धकेल दिया।

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div> <div> <div>एसबीएफसी फाइनॅस लिमिटेड</div> <div>पंजीकृत कार्यालय : युनिट नं. 103, प्रथम तल, की एच बी स्क्वॉयर, संपन्न कॉम्प्लेक्स, ग्राम चकला, अमेरी-कुल्लू रोड, अमेरी (एडी), मुंबई-400095</div> </div>	
<div>अधिग्रहण सूचना (प्रतिबिम्बित हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(2) के अनुसार)</div> <p>जबकि, अयोहस्ताक्षरकर्ता ने एसबीएफसी फाइनॅस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसमर्थियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिबिम्बित हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिबिम्बित हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पंजीकृत धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, निम्न वर्णित उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ताओं को मॉग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिन्हें सूचना में अंकित राशि का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभूतिगुप्तान करने को कहा गया था।</p> <p>उधारकर्ता / सह-उधारकर्तागण राशि का प्रतिभूतिगुप्तान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्वारा उधारकर्ता / सह-उधारकर्ताओं तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अयोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित समष्टि का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, निम्नांकित तिथियों पर अधिग्रहण कर लिया है।</p> <p>उधारकर्ता / सह-उधारकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संग्रिप्त का लेन-देन न करें तथा संग्रिप्त का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, एसबीएफसी फाइनॅस लिमिटेड के प्रमााधीन होगा।</p>	
<div>उधारकर्ताओं के नाम एवं पते तथा मॉग सूचना की तिथि</div>	<div>संप्रतिप्रेषी का विवरण तथा अधिग्रहण की तिथि</div>
<div>1. सूची कार डेकोरेटर्स, 2. वीणा सूची, 3. मुकुल सूची, 4. मीनाथी सूची, 5. रॉबिन धीर, 6. पंकज बवेजा, 7. ओ एफ एडुवस, सभी का पता- शॉप नंबर 18/2, सुभाष चौक, मोर मेगा स्टोर के समीप, सोहना रोड गुडगांव, गुल्ग्राम, हरियाणा-122018</div> <div>मॉग सूचना तिथि : 07 मार्च 2022</div> <div>कृप्य सूचना संख्या : '25600000559DH/ PR00619171</div> <div>25600000559DH/ PR00851545</div>	<div>सं. सूची-043-ए धारक दुकान / वाणिज्यिक स्थल धारक संग्रिप्त के समस्त भाग तथा अंश, जो ऊपरी मूलत पर (क्षेत्रफल 21.120 वर्ग मीटर), जिसे 'रहेजा नॉल' के नाम से जाना जाता है, जो ग्राम- टिकरी, सोहना रोड, सेक्टर-47, गुडगांव, हरियाणा, सं. और सं. सूची-043-बी धारक दुकान / वाणिज्यिक स्थल, जो ऊपरी मूलत पर (क्षेत्रफल 21.120 वर्ग मीटर) जिसे 'रहेजा नॉल' के नाम से जाना जाता है, जो ग्राम- टिकरी, सोहना रोड, सेक्टर- 47, गुडगांव, हरियाणा में स्थित है।</div> <div>अधिग्रहण की तिथि : 22 अगस्त 2024</div>
<div>उधारकर्ताओं के नाम एवं पते तथा मॉग सूचना की तिथि</div>	<div>हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी), एसबीएफसी फाइनॅस लिमिटेड</div>

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div> <div> <div>हिंदुजा हाउसिंग फाइनॅस लिमिटेड</div> <div>कंपोर्नैट कार्यालय: नं. 167-169, द्वितीय तल, अनाम सहाई, लैंगपेट, बेन्गाल-600015, हैदराबाद, आंध्रप्रदेश</div> <div>हैदराबाद: auction@hindujahousingfinance.com</div> <div>शाखा: प्रथम तल, ईडवर्ड्स बिल्डिंग के ऊपर, ओल्ड जैदी रोड, शांम नगर, करनाल, हरियाणा-132001</div> </div>	
<div>एलएसए – अरुण मोहन शर्मा, 8800898989, आरआरएलए – अश्विनी शर्मा, 9847088333, चौरसलए – नवीदीप सिंह, 9417228645, तीसरेलए – संजीव, 9034528375</div>	
<div>वित्तीय आितन्यों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभूतिक्रित नियम 2002 के नियम 13(2) के अन्तर्गत यह सूचना जारी की जाती है।</div> <p>हिंदुजा हाउसिंग फाइनॅस लिमिटेड से प्राप्त किये गये ऋण को कि एन ए व्ही चुके हैं व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्नवर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विसुप्त मांग सूचना निम्नवर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों को वित्तीय आितन्यों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्ण एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांकों को पंजीकृत डाक पार्कनी सहित /म्योड पेटेंट/कॉपीर पर द्वारा आप सभी को भेजी गयी थी, जिसकी पावती प्राप्त नहीं हुई/जो बिना तामील वापस प्राप्त हो गयी है। मांग सूचना निम्नांकित दिनांकों में हमने आशय को स्पष्ट कर दिया था, कि आपके द्वारा सूचना में दर्शाई राशि 60 दिनों के अन्दर जमा नहीं करायी गयी तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार बैंक में धंधक सम्पत्तियों को कि निम्नांकितित ऋणियों/जमानतदारों के नाम है, उनका अधिग्रहण से लिया जायेगा और कच्चा सूचना/ई-नोतापी सूचना से कर्जदार व गारंटरों की फोटो प्रकाशित की जायेगी। बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है:-</p>	

क्र.सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर के नाम और एनपीए की तारीख	मांग सूचना की तारीख बकाया राशि	सिक्क्याई आितन्यों का विवरण
1	श्री राजन रेखा, एस जेवश रेखा और ईशू रेखा, सभी: वीएस कॉलोनी पानीपत हरियाणा, पानीपत, सरकारी स्कूल, हरियाणा – 132103	मांग सूचना की तारीख 26-04-2023	मकान नं. 26, 1 ई.डब्ल्यू.एस., क्षेत्रफल 45.60 वर्ग म्, पानीपत की एम.सी. सीयू के अंतर्गत वीएस कॉलोनी पानीपत की अमावी, होल्ट पार्क के पास, वीएस कॉलोनी, वार्ड नं. 23, नगर निगम पानीपत, तहसील और जिल्ला-पानीपत (132103), हरियाणा, चौदौरी: पुरव में - 26।1 ई.डब्ल्यू.एस., पश्चिम में - कान्हाट नं.-262 ई.डब्ल्यू.एस., उत्तर में - कान्हाट नं.-254 ई.डब्ल्यू.एस., दक्षिण में - रोड
	खाता नं. HN/PNP/PNPT/A000000060	बकाया राशि ₹ 13,98,898/- दिनांक 19-04-2023 तक + ब्याज एवं बटुनी प्रभार इत्यादि	
2	श्री प्रेम सिंह, श्री विमलजीत खेर और भानो खत्री, दोनों: (180) अखला बरियारा हरियाणा – 134003	मांग सूचना की तारीख 25-09-2023	संपत्ति अर्वात मकान जौकि लालस (इक्वस्त सं. 218), तहसील डेरा बस्ती जिला स.ए.एस. नगर (महिला), क्षेत्रफल 0-1 बिस्वा ज बिस्वाती अर्वात 60 वर्ग म्, खैरत संख्या 783, खत्तीनी संख्या 1581, बसरा संख्या 91/ 24(2-0), 115/ 14/ 1(1-0), मर 2, कुल क्षेत्रफल 3-0 बीघा जिसमें 24/1200 में से हिस्सा जो 0-1 बिस्वा 4 बिस्वाती अर्वात 60 वर्ग म् के बराबर, चौदौरी: पुरव में - स्प सिंग, पश्चिम में – मांग, उत्तर में – स्वयं मालिक, दक्षिण में – मांग (आकर 20 फीट X 27 फीट)
	खाता नं. P.J/ZKP/ZKPR/A000000082	बकाया राशि ₹ 9,03,489/- दिनांक 22-08-2023 तक + ब्याज एवं बटुनी प्रभार इत्यादि	
3	श्री निशांत और सरोज, दोनों: विनयपुर अहौर (138), सोनोपत गन्नीर, हरियाणा –131101	मांग सूचना की तारीख 20-11-2023	संपत्ति क्षेत्रफल 300 वर्ग म्न अर्वात OK-10M, भूमि क्षेत्रफल OK-16M में से 5/8 हिस्सा, जो खैरत सं. 221, खत्तीनी सं. 279, बसरा संख्या 26, जिला संख्या 3/1/4 (0-16) में शामिल, जो शॉप विनयपुर अहौर, तहसील गन्नीर, जिला सोनीपत में स्थित, चौदौरी: पुरव में – सदीप का लॉट, पश्चिम में – खिरोड का मकान, उत्तर में – सड़क, दक्षिण में – चंद्रमान का लॉट
	खाता नं. HN/PNP/PNPT/A000000045	बकाया राशि ₹ 20,62,246/- दिनांक 17-10-2023 तक + ब्याज एवं बटुनी प्रभार इत्यादि	
4	श्री मंजीव चौधाल और गीता, दोनों: मकान नं. 527, वार्ड नं. – 01 वीओओ हाइवेर, कर्ग लेक, चण्डीगढ़ हरियाणा – 1320001	मांग सूचना की तारीख 20-11-2023	संपत्ति क्षेत्रफल OF-02M. खैरत सं. 164 [संबंधित सं. 151] में समझौता, खत्तीनी संख्या 183, भूख्ता संख्या 18, जिला संख्या 15/2 (जो-2) गंग आहौर तहसील नौलोखेड़ी, जिला करनाल, हरियाणा में स्थित, चौदौरी: पुरव में – अन्य का लॉट, पश्चिम में – ग्नी, उत्तर में – इन्दर का मकान, दक्षिण में – रागेश का मकान
	खाता नं. HR/KRN/KARN/A000000093	बकाया राशि ₹ 11,86,616/- दिनांक 19-10-2023 तक + ब्याज एवं बटुनी प्रभार इत्यादि	
5	श्री बेर प्रकाश और प्रिंता प्रिंता, दोनों: सिन्धु क्रेडा सैदी, ओम शान्ति भवन, प्रमोया, जिर, हरियाणा, भारत – 126113	मांग सूचना की तारीख 11-12-2023	संपत्ति क्षेत्रफल 142 वर्ग म्न अर्वात OK-4M-4S जो 9/458 शेयर संपत्ति क्षेत्रफल 11K-9M में से, जो खैरत सं. 232/ /209, खत्तीनी सं. 275, रैरत सं.19 जिला सं. 15/2(0-4), बसरा सं. 180(1-0),625/1(6-12) खत्तीनी सं. 276 बसरा सं. 623(0-7),625/2/1/2(1-9) बसरा सं. 625/2/1/1(0-16) सिन्धुखेड़ा, तहसील सिन्धुखेड़ा, जिला हरियाणा में स्थित, चौदौरी: पुरव में – 28/-07/ मोनाथी की भूमि, पश्चिम में – 28/-10/ राला 20 फीट बीड़ा, उत्तर में – 46-00 रमनिवास की भूमि, दक्षिण में – 427-00/ रमनिवास की भूमि
	खाता नं. HN/PNP/PNPT/A000000081 & CO/CPCP/COF/A0000001495	बकाया राशि ₹ 16,85,853/- दिनांक 06-10-2023 तक + ब्याज एवं बटुनी प्रभार इत्यादि	
6	श्री मुकेश और सुरज निव खत्री, दोनों: सुंदर नाम 3 नंबर गेट धर्मन गांव उत्तरका, ओम शान्ति भवन, पानीपत, हरियाणा-132103	मांग सूचना की तारीख 14-03-2024	संपत्ति क्षेत्रफल 200 वर्ग म्न अर्वात 6 मार्ला 5 सरसई, 780 शेयर संपत्ति क्षेत्रफल 3 कनाल 15 मार्ला में से, खैरत नंबर 101 में शामिल खत्तीनी नं. 122, रैरत. नंबर 50, केला नं. 24/2/2(1-9), 25/2(2(1-16) गांव आसत खुर्र के रेवेन्यू ईस्टेट के अंतर्गत, तहसील, मरहोला, जिला पानीपत, हरियाणा-132193 चौदौरी: पुरव में – मगरोर का मकान, पश्चिम में – वजीर सिंह का मकान, उत्तर में – जलाली, दक्षिण में – सड़क
	खाता नं. HN/PNP/PNPT/A0000000088	बकाया राशि ₹ 10,15,503/- दिनांक 21-12-2023 तक + ब्याज एवं बटुनी प्रभार इत्यादि	
7	श्री मोहित सिंह और रामरश्मि, दोनों: वीओओ कृष्ण लेक अस्थ का मकान, लखनौ क्रेडल हरियाणा-132406	मांग सूचना की तारीख 25-03-2024	संपत्ति क्षेत्रफल 338 वर्ग म्न अर्वात OK-11M-03S संपत्ति क्षेत्रफल 6K-04M में से 17/186 हिस्सा, जो खैरत सं. 857 में शामिल खत्तीनी सं. 1163, बसरा सं. 57, जिला सं. 9/1 (6-4) नगीर, तहसील गन्नीर, जिला सोनीपत (एससी सीमा के अंतर्गत) एवं 2015-2016 की जमानती और उप-पंजीकृत पन्नीर की किसी विशेष सस्ती सं. 1487 दिनांक 08.07.2022 और न्यूट्रान सं. 26775 के अनुसार, चौदौरी: पुरव में – शहद, पश्चिम में – सुनारी देवी का लॉट, उत्तर में – भीम का लॉट, दक्षिण में – स्ट्रीट
	खाता नं. HN/PNP/PNPT/A000000093	बकाया राशि ₹ 31,18,477/- दिनांक 21-03-2024 तक + ब्याज एवं बटुनी प्रभार इत्यादि	
8	श्री सोहन सिंह और रंजीत कौर, दोनों: गांव लोहरा लाहवा (338) कुल्खेज लाहवा हरियाणा-136132	मांग सूचना की तारीख 25-03-2024	OK-06M-035 संपत्ति क्षेत्रफल 09K-09M में से 57/1701 हिस्सा, जो खैरत सं. 10।1 में शामिल खत्तीनी सं. 252, बसरा सं. 362 (8-0), 412(2 (1-9) क्लिच – 2, गांव लोहरा उप-तहसील 1 बकनेर, तहसील लाहवा, जिला कुल्खेज, चौदौरी: पुरव में – बगरा सिंह का मकान, पश्चिम में – ग्नी, उत्तर में – बलदेव सिंह की संपत्ति, दक्षिण में – ग्नी
	खाता नं. HR/KRN/KARN/A000000110	बकाया राशि ₹ 15,51,377/- दिनांक 21-03-2024 तक + ब्याज एवं बटुनी प्रभार इत्यादि	
9	श्री सचिन और सबीना दोनों: मकान नं. 666 सलीही रोड, वार्ड नंबर 12, विधान सं.कोलोनी, कला नवीला चौक पानीपत हरियाणा 132103	मांग सूचना की तारीख 06-08-2024	संपत्ति आई दी 1GG270V9 क्षेत्रफल 61 वर्ग म्न अर्वात 2 मार्ला, 6 कनाल 16 मार्ला में से 2/136 हिस्सा, जो खैरत सं. 966 में शामिल रैरत सं.19 जिला सं.3(6-16), गांव उखा खेरी पानीपत खत्तीनी विधान सं.कोलोनी पानीपत तहसील और लोला पानीपत में स्थित किसी विशेष सस्ती सं.-9268 दिनांक 05.01.2023 के माध्यम से उप-पंजीकृत पानीपत के कार्यालय में पंजीकृत और न्यूट्रान नं.-17772 दिनांक 03-02-2023 को ए.सी वित्तीय बैंची पानीपत द्वारा र्व और सिन्धुखे, चौदौरी: पुरव में – रासल, पश्चिम में – बगरा सिंह का मकान, पश्चिम में – वजीर का मकान, दक्षिण में – वजीर की संपत्ति
	खाता नं. HN/PNP/PNPT/A000000186	बकाया राशि ₹ 14,65,178/- दिनांक 01-08-2024 तक + ब्याज एवं बटुनी प्रभार इत्यादि	
10	श्री विश सिंह और श्री कल्याण कौर, दोनों: खैरत – 749, काला – 1017, उत्तर – 4, नगर निगम पानीपत, दुर्ग ए मॉडल तहसील के पास पन्नीर, जिला – सोनीपत (131101)	मांग सूचना की तारीख 06-08-2024	संपत्ति क्षेत्रफल OK-02M-04S अर्वात 75 वर्ग म्न, 5/968 हिस्सा, खैरत नं. 749 नं. शामिल, खत्तीनी नं. 1017, बसरा सं. 107/116 (7-12), 17 (8-0) 108/19(2 (0-12), 20 (8-0) जाम्बेसी 2015-16 के अनुसार, लखी कॉलोनी, पन्नीर, तहसील पन्नीर और जिला सोनीपत में स्थित, चौदौरी: पुरव में – गती ली, पश्चिम में – सरकारी अधिखालि भूमि नं। चौदौरी, उत्तर में – अनात सिंह, दक्षिण में – रामनरेश भारती का प्लॉट
	खाता नं. HN/PNP/PNPT/A000000105	बकाया राशि ₹ 12,02,502/- दिनांक 01-08-2024 तक + ब्याज एवं बटुनी प्रभार इत्यादि	
11	श्री सचिन सिंह और श्री मालविकी कौर, दोनों: खैरत नं. 2351, हाउसब नं. 20447, मॉडलपुर रोड, जाम्बेसी वर्ग 2017-18, कला धाम अरुंग, मॉडलपुर रोड, करनाल, हरियाणा, 132039	मांग सूचना की तारीख 06-08-2024	संपत्ति क्षेत्रफल 785 अर्वात 1 मार्ला 6 सरसई, 85 कनाल 11 मारला में से 26/1711 हिस्सा, खैरत नं. 2351 में शामिल क्लिच 14, जौकि ग्नी अस्थ तहसील अस्थ जिला करनाल ट्रिस्वर गेट सस्ती सं. 3330 के माध्यम से, चौदौरी: पुरव में – 68 फीट 9 इंच x 31 फीट 5 इंच x 50 फीट 10 इंच पश्चिमत सिंह पुन श्री निशांत सिंह का मकान, पश्चिम में – 44 फीट 10 इंच x 66 फीट 7-1/2 इंच ग्नी, उत्तर में – 63 फीट 9 इंच, दक्षिण में – 40 फीट गुरदीप पुन श्री धानन सिंह का मकान
	खाता नं. HN/PNP/PNPT/A000000208	बकाया राशि ₹ 13,38,697/- दिनांक 01-08-2024 तक + ब्याज एवं बटुनी प्रभार इत्यादि	
12	श्री यशपाल और श्री रीता देवी, दोनों: गांव कलेकपुर, मेहर माजरा (105), मेहर माजरा, वडुना नगर, हरियाणा, 135101	मांग सूचना की तारीख 06-08-2024	मकान क्षेत्रफल 06 मार्ला 05 सरसई, खैरत/खत्तीनी सं. 14/14 (अथ खैरत/खत्तीनी संख्या 1545) में शामिल, बसरा सं. 32/1/4 (4-2) 59/738 हिस्सा अर्वात 06 मरला 05 सरसई, मौना फतेहगढ़, एच.बी. संख्या 107, तहसील – जगानाथी, जिला – मुहनागर, चौदौरी: पुरव में – कृष्ण का लॉट, पश्चिम में – ग्नी, उत्तर में – अमिल कुमार की संपत्ति, दक्षिण में – सिनोड का मकान
	खाता नं. HR/KRN/KARN/A000000236	बकाया राशि ₹ 25,08,209/- दिनांक 01-08-2024 तक + ब्याज एवं बटुनी प्रभार इत्यादि	
13	श्री अमिषेक, पुष्पा देवी और श्रीमती श्रद्धा, दोनों: कोमेसर कॉलोनी धानेसर, कुल्खेज, अर्धराशी हरियाणा – 136118	मांग सूचना की तारीख 06-08-2024	मकान नं. 816/12, क्षेत्रफल 10 मार्ला अर्वात 311 वर्ग म्न, खैरत नं. 151/141 में शामिल (अथ खैरत नं. 164), खत्तीनी नं. 172 (अथ खत्तीनी नं. 175), बसरा नं. 31//6/2/4 (2-14) 5/54 हिस्सा अर्वात 05 मरला और खैरत नं. 189/179 (अथ खैरत नं. 201) खत्तीनी नं. 216 (अथ खत्तीनी नं. 218), बसरा सं. 31//15/1/1 (1-4) 5/24 हिस्सा अर्वात 05 मरला, कुल भूमि 10 मरला, मौना ररं खेड़ा, एच.बी. नं. 385, जिसे अब जेजेसर कॉलोनी कहते हैं, ग्नी कुल्खेज, तहसील धानेसर, जिला कुल्खेज, नगर परिषद धानेसर की सीमा के अंतर्गत (रस्ते काद “प्रजापातीय सचीव” के रूप में संचर्चित) स्वामित्व पंजीकृत हस्तांतरण विशेष सं. 12959 दिनांक 27-03-2015,, चौदौरी: पुरव में – सड़क, पश्चिम में – कृष्ण बरं का मकान, उत्तर में – ग्नी, दक्षिण में – चांद पांडे रोड
	खाता नं. HR/KRN/KARN/A000000343	बकाया राशि ₹ 18,12,394/- दिनांक 01-08-2024 तक + ब्याज एवं बटुनी प्रभार इत्यादि	
14	श्री अशोक कुमार पुत्र राजवीर सिंह और सोनिया देवी, दोनों: दलनाथ हाराणा प्रताप स्कूल पानीपत हरियाणा – 132140	मांग सूचना की तारीख 06-08-2024	एतद्वारा प्रमाणित किया गया है कि संपत्ति स्वामी: सोनिया देवी पत्नी की अशोक कुमार, संपत्ति 53 वर्ग म्न अर्वात 1 मरला 7 सरसई, जो 10 कनाल 6 मरला में से 371/43569 हिस्सा, खैरत सं. 55/4, रैरत सं. 81 जिला सं. 12/2(2-6), 13(8-0) में शामिल प्लॉट बदलना तहसील और जिला पानीपत में स्थित
	खाता नं. HN/PNP/PNPT/A000000206	बकाया राशि ₹ 15,46,835/- दिनांक 01-08-2024 तक + ब्याज एवं बटुनी प्रभार इत्यादि	

उक्त वर्णित ऋणियों / जमानतदारों को समझ है कि (1) अधिक पैर दिखित जानकारी के लिए अवेडस्तावरों से मूल नोटिफ प्रार कर लें (2) मांग सूचना में दर्शाई गयी बकाया राशि ब्याज एवं खर्चें सहित सचिंत मांग सूचना की दिनांक के 60 दिनों के भीतर जमा करें ताकि सरकारी अधिनियम के तहत अंतिम कार्यवाही से बच सकें।

दिनांक : 24.08.2024, स्थान : हरियाणा

प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनॅस लिमिटेड

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div> <div> <div>चंद्रश्री कमर्शियल</div> <div>एंटरप्राइजेज लिमिटेड</div> <div>फॉर्म नं. आईएनसी –28</div> </div>	
<div>कंपनी (निगम) द्वितीय संशोधन नियम। 2017 के नियम 30(5)(C) के अनुसार, कम्पनी को पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञान</div>	
<div>केंद्र सरकार उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष</div>	
<div>कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) तथा कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (6) के खंड (ए) के मामले में है, तथा</div>	
<div>चंद्रश्री कमर्शियल एंटरप्राइजेज लिमिटेड (सीआईएल) U72100DL1985PLC021529) के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय 303-304 पदम चौबर 3924-25928 रंगपुर प्ला पदम सिंह रोड कोलकाता, नई दिल्ली, भारत, 110005 में है, ई-मेल- nuyokstores@gmail.com</div>	
<div>राज्यकर्ता आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी बुधवार, 07 अगस्त, 2024 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार आम बैठक के एसोसिएशन के ज्ञापन में परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" के "पाश्चिम बंगाल राज्य" में बदल सके।</div>	
<div>कॉर्पो मी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह विशेष शिकायत प्रपत्र दाखिल करके एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर जमा कर सकता है या अपने हित की प्रकृति और विषय के आधार बताते हुए हलफनामे के साथ अपनी आपत्तियों को पंजीकृत डाक से क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, बी-2 थिंग, दूसरी मंजिल, प. दीनदयाल अंबेडकर भवन, द्वितीय तल, लीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के भीतर, आवेदक कंपनी को उसके ऊपर उल्लिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर एक प्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा।</div>	
<div>के लिए और की ओर से चंद्रश्री कमर्शियल एंटरप्राइजेज लिमिटेड हस्ताक्षरकर्ता/- सुनील लक्ष्मणदास दासगौनी निदेशक दिनांक: 24.08.2024 स्थान: दिल्ली (बीआईएन: 01601585)</div>	

आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी बुधवार, 07 अगस्त, 2024 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार आम बैठक के एसोसिएशन के ज्ञापन में परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" के "पाश्चिम बंगाल राज्य" में बदल सके।

कॉर्पो मी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो सके, उसे आमंत्रित किया जाता है, वह निम्नलिखित शिकायत प्रपत्र में लिखित करके एमसीए-21 में पौडन www.mca.gov.in पर जमा कर सकता है।

आ जनता हित की प्रवृत्ति और विवेक के आधार पर, हमें एक हस्तग्राहक के साथ आम जनता आचार्यों को पंजीकृत कार्यालय के भौतिक निवेदन, उससे और अधिक प्रतिक्रिया मांगनी चाहिए, कि-2 हित, दूसरी प्रतिक्रिया, पंजीकृत निवेदन और हस्तग्राहक को सूचित किया जाएगा, नई दिल्ली-110005 को हस्त प्रतिक्रिया के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों में मीक, प्रतिक्रिया के पंजीकृत कार्यालय को उसके द्वारा प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया पत्र पर एक प्रतिक्रिया के साथ प्रस्तुत करने का समय है।

के द्वारा जारी की गई